

KL/SEC/2025-26/67

Date: 3rd December, 2025

To,
The Manager - Listing
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400 051

NSE Symbol: KAMDHENU

To,
The Manager - Listing
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400 001

BSE Scrip Code: 532741

Sub: Copies of Newspaper Advertisement - Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares.

Ref: Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the Regulation 30 and 47 of Listing Regulations, please find attached copies of extract of newspaper advertisements published today i.e. on Wednesday, 3rd December, 2025 in all editions of Financial Express (English) and Delhi-NCR edition of Jansatta (Hindi) regarding publication of the public notice for the opening of the Special Window for relodgment of transfer requests of physical shares.

Gurgaor

We request you to kindly take the same on records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Kamdhenu Limited

Khem Chand,

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: as above.

FINANCIAL EXPRESS

Continue From Previous Page...

ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS

Details of proposed / undertaken pre-offer placements from the DRHP filling date: Our Company has not undertaken any Pre-IPO Placements from the DRHP filing date.

Transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the Company by promoter(s) and promoter group(s) from the DRHP filing date.: Our promoter(s) and promoter group(s) has not undertaken any transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the company from the DRHP filing date.

Shareholding of the Promoter/Promoter Group and Additional Top 10 Shareholders of the Company:

Sr. No.	Pre-Offer Shareholding as at the Date of Advertisement			Post-Offer Shareholding as at Allotment ⁽¹⁾			
	2	Number of Equity Shares (2)	Shareholding	At the lower end of the price band (₹ 131)		At the higher end of the price band (₹ 138)	
	Shareholders		(in%) ⁽²⁾	Number of Equity Shares®	Share Holding (in %) [™]	Number of Equity Shares [∞]	Share Holding (in %)(2)
Promote	er and Promoter Group(1)						
1 _c	Onus Digital Services Private Limited	18,00,000	33.03	16,00,000	22.70	16,00,000	22.70
	Pallavi Hiren Kothari	11,40,000	20.92	10,00,000	14.18	10,00,000	14.18
	Manan H Kothari	6,60,000	12.11	6,60,000	9.36	6,60,000	9.36
	Nidhi Parth Sheth	1,50,000	2.75	1,50,000	2.13	1,50,000	2.13
	Forum Abhay Kapashi	Nil	NA	Nil	NA	Nil	NA
	Khyati Ritesh Sanghavi	1,50,000	2.75	1,20,000	1.70	1,20,000	1.70
	Khushboo Shah	1,50,000	2.75	1,20,000	1.70	1,20,000	1.70
Addition	al Top 10 Shareholders*					1	
1.	Rahul Bhatia	5,00,000	9.17	5,00,000	7.09	5,00,000	7.09
2.	Malti Rahul Bhatia	2,00,000	3.67	2,00,000	2.84	2,00,000	2.84
3.	Atul Devchand Shah	1,00,000	1.83	1,00,000	1.42	1,00,000	1.42
4.	Hiten Kantilal Parekh	75,000	1.38	75,000	1.06	75,000	1.06
	Shilpa Parag Kothari	75,000	1.38	75,000	1.06	75,000	1.06
	Hem Parag Kothari	75,000	1.38	75,000	1.06	75,000	1.06
5.	Darshana Atul Shah	62,500	1.15	62,500	0.89	62,500	0.89
	Mehul Atul Shah	62,500	1.15	62,500	0.89	62,500	0.89
6.	Rita Hiten Parekh	50,000	0.92	50,000	0.71	50,000	0.71
	Hiten K Parekh HUF	50,000	0.92	50,000	0.71	50,000	0.71
	Parag Jagdish Kothari	50,000	0.92	50,000	0.71	50,000	0.71
	Jeel Divyesh Parekh	50,000	0.92	50,000	0.71	50,000	0.71
7.	Megha Atul Shah	25,000	0.46	25,000	0.35	25,000	0.35
500	Navin Popatlal Shah	25,000	0.46	25,000	0.35	25,000	0.35
	Total	54,50,000	100	50,50,000	71.63	50,50,000	71.63

There are only 14 shareholders other than Promoter and Promoter Group

The Promoter Group shareholders are Khyati Ritesh Sanghavi and Khushboo Shah.

(2) Includes any transfers of equity shares by existing shareholders after the date of the pre-offer and price band advertisement until date of prospectus and there is no any outstanding options that have been exercised until date of prospectus.

(3) Assuming full subscription in the Offer. The post-offer shareholding details as at the allotment will be based on the actual subscription and the final offer price and updated in the prospectus, subject to finalization of the basis of allotment. Also, this assumes there is no transfer of shares by these shareholders between the date of the advertisement if any such transfers occur prior to the date of prospectus, it will be updated in the shareholding pattern in the prospectus.

Investors should read the RHP carefully, including the "Risk Factors" on page 31 of the RHP before making any investment decision.

BASIS FOR OFFER PRICE

The "Basis for Offer Price" on page 109 of the Red Herring Prospectus has been updated with the above price band. Please refer to the website of the BRLM i.e. www.cumulativecapital.group for the "Basis for Offer Price" updated with the above price band or scan the QR code for the "Basis for Offer Price" updated with above price band.

INDICATIV	E TIMELINE
Sequence of Activities	Listing within T+3 days (T is Offer Closing Date)
Application Submission by Investors	Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) For Individual Investor - Upto 5 pm on T Day. Electronic Applications (Bank ASBA through Online Channels like: Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA etc.) - Upto 3 pm on T Day. Electronic Applications (Syndicate Non -Individual, Non- Institutional Applications) - Upto 3 pm on T Day. Physical Applications (Bank ASBA) -Upto 1 pm on T Day. Physical Applications (Syndicate Non -Individual, Non- Institutional Applications) -Upto 12 pm on T Day and Syndicate members shall transfer such applications to banks before1 pm on T Day.
Validation of bid details with depositories	From Offer closing date up to 5 pm on T Day.
Reconciliation of UPI mandate transactions (Based on the guidelines issued by NPCI from time to time): Among Stock Exchanges - Sponsor Banks - NPCI and NPCI - PSPs/TPAPS-Issuer Bank; Reporting formats of bid information, UPI analysis report and compliance timelines.	On daily basis: Merchant Bankers to submit to SEBI, sought as and when
UPI Mandate acceptance time	T day - 5 pm
Offer Closure T day	T Day - 3 pm for QIB and NII categories, T Day - 3 pm for Individual investors and other reserved categories
Third party check on UPI applications	On daily basis and to be completed before 9:30 am on T+1 day.
Third party check on Non- UPI applications Submission of final certificates: -For UPI from Sponsor Bank -For Bank ASBA, from all SCSBs -For syndicate ASBA UPI ASBA	On daily basis and to be completed before 1 pm on T+1 day. Before 9:30 pm on T + 1 day All SCSBs for Direct ASBA - Before 07:30 pm on T Day Syndicate ASBA - Before 07:30 pm on T Day.
Finalization of rejections and completion of basis	Before 6 pm on T+1 day.
Approval of basis by Stock Exchange	Before 9 pm on T+1 day.
Issuance of fund transfer instructions in separate files for debit and unblock. For Bank ASBA and Online ASBA – To all SCSBs For UPI ASBA – To Sponsor Bank Corporate action execution for credit of shares	Intimation not later than 9:30 am on T + 2 day. Completion before 2 pm on T + 2 day for fund transfer; Completion before 4 pm on T + 2 day for unblocking Intimation before 2 pm on T + 2 day
	Completion before 6 pm on T+ 2 day
Filing of listing application with Stock Exchanges and issuance of trading notice	Before 7:30 pm on T+2 day
Publish allotment advertisement	On the website-of issuer, Merchant Banker and RTA - before 9 pm on T + 2 day. In Newspaper - on T + 3 day but not later than T + 4 day
Trading starts T+3 day	T+3 day
REPORTED AND SECURITY OF THE PROPERTY OF THE P	1

Bid/Offe

Event	Indicative Dates
Bid/ Offer Opening Date*	Monday, December 8, 2025
Bid/ Offer Closing Date** ^	Wednesday, December 10, 2025
Finalization of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange	On or before Thursday, December 11, 2025
Initiation of Allotment / Refunds / Unblocking of Funds from ASBA Account or UPI ID linked bank account***	On or before Friday, December 12, 2025
Credit of Equity Shares to Demat accounts of Allottees	On or before Friday, December 12, 2025
Commencement of trading of the Equity Shares on the Stock Exchange	On or before Monday, December 15, 2025

*Our Company and Selling Shareholders, in consultation with and the Book Running Lead Manager, may consider participation by Anchor Investors, in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The Anchor Investor Bid/ Offer Period will be one Working Day prior to the Bid/ Offer Opening Date in accordance

with the SEBI ICDR Regulations. ** Our Company and Selling Shareholders, in consultation with the Book Running Lead Manager, may decide to close the Bid/Offer Period for QIBs one

Working Day prior to the Bid/ Offer Closing Date in accordance with the SEBI ICDR Regulations. UPI mandate end time and date shall be at 5:00 pm on the Bid/Offer Closing Date.

***In case of any delay in unblocking of amounts in the ASBA Accounts (including amounts blocked through the UPI Mechanism) exceeding 2 (two) Working Days from the Bid/Offer Closing Date for cancelled/withdrawn/deleted ASBA Forms, the Bidder shall be compensated at a uniform rate of ₹ 100 per day or 15% per annum of the Bid Amount, whichever is higher, for the entire duration of delay exceeding 2 (two) Working days from the Bid/Offer Closing Date by the intermediary responsible for causing such delay in unblocking. The BRLM shall, in their sole discretion, identify and fix the liability on such intermediary or entity responsible for such delay in unblocking. For the avoidance of doubt, the provisions of the SEBI circular dated March 16, 2021, as amended pursuant to SEBI circular dated June 2, 2021 shall be deemed to be incorporated in the deemed agreement of the Company with the SCSBs, to the extent applicable. CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 176 of the RHP. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 341 of the RHP. LIABILITY OF MEMBERS OF THE COMPANY: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The authorized share capital of the Company is ₹ 8,00,00,000 divided into 80,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each. The Offered, subscribed, and paid-up share capital of the Company before the Offer is ₹ 5,45,00,000 divided into 54.50,000 Equity Shares of ₹ 10/- each. For details of the Capital Structure, see chapter titled "Capital Structure" beginning on page 78 of the RHP.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY

THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: Nidhi Parth Sheth (5,000 Equity Shares) and Khyati Ritesh Sanghavi (5,000 Equity Shares) of ₹ 10/- each.

LISTING: The Equity Shares Offered through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE SME") in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended from time to time. Our Company has received an approval letter dated September 19, 2025, from BSE for using its name in the Offer Document for listing of our shares on the SME Platform of BSE. For the purpose of this Offer, the Designated Stock Exchange will be the BSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): Since the Offer is being made in terms of chapter IX of the SEBI

(ICDR) Regulations, 2018, the Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 273 of the Red Herring Prospectus. DISCLAIMER CLAUSE OF BSE ("BSE SME") (The designated stock exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited

("BSE") should not in any way be deemed of construed that the contents of the Offer Document or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer the Offer Document for the full text of the Disclaimer Clause of BSE.

The investors are advised to refer to page 275 of the RHP for the full text of the Disclaimer Clause of BSE.

CREDIT RATING

This being the Offer of Equity Shares, no credit rating is required.

DEBENTURE TRUSTEE

This being the Offer of Equity Shares, the appointment of Trustees is not required.

IPO GRADING

Since this Offer is made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, there is no requirement of appointing an IPO Grading Agency. TRACK RECORD OF BOOK RUNNING LEAD MANAGER:

The Merchant Banker associated with the Offer has handled 3 SME public issues since Inception.

GENERAL RISK: Investments in Equity and Equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the offer including the risks involved. The Equity Shares Offered in the Offer have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section "Risk Factors" beginning on page 31 of the Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE OFFER



Cumulative Capital Private Limited Address: B 309-311, 215 Atrium, Nr. Courtyard

Marriott Hotel, Andheri Kurla Road, Andheri East, Chakala MIDC, Mumbai- 400093, Maharashtra,

Telephone: +91 981 966 2664 / +91 9870924935

Facsimile: NA

Email: contact@cumulativecapital.group Website: www.cumulativecapital.group

Investor Grievance Email:

investor@cumulativecapital.group Contact Person: Swapnilsagar Vithalani/ Hetal Mulji Gajra

SEBI registration number: INM000013129 CIN: U64910MH2023PTC414974

REGISTRAR TO THE OFFER



Address: C-101, 247 Park, 1st Floor, L B S Marg. Vikhroli (West), Mumbai 400083, (Maharashtra)

MUFG Intime India Private Limited

Telephone: +91 810 811 4949 Facsimile: NA

Email: prodocssolutions.smeipo@in.mpms.mufg.com

Investor Grievance Email: prodocssolutions.smeipo@in.mpms.mufg.com Contact Person: Shanti Gopalkrishnan

SEBI Registration Number: INR000004058 CIN: U67190MH1999PTC118368

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER Meghha Trivedi

Company Secretary & Compliance Officer **Prodocs Solutions Limited** Address: 6/19, 1st Floor, Transmission House,

Compound No. 82, MIDC, Near M.V. Road, Andheri East, Mumbai - 400059, Maharashtra

Email: secretarial@prodocssolution.com

Tel No: +91 226231 5800

Website: www.prodocssolution.com

Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Offer in case of any Pre-Offer or Post-Offer related grievances including non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted equity shares in the respective beneficiary account, nonreceipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, etc. For all Offer related gueries and for redressal of complaints, investors may also write to the

AVAILABILITY OF RHP: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factor contained therein, before applying in the Offer. Full copy of the Red Herring Prospectus shall be available at the website of Stock Exchange www.bseindia.com, the website of Book Running Lead Manager: www.cumulativecapital.group; and from the Registered Office of the Company.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Prodocs Solutions Limited (Telephone: +91 2262315800) BRLM: Cumulative Capital Private Limited (Telephone: +91 9819662664) Syndicate Member: Fortune Fiscal Limited (Telephone: +91 9925746841), Registered Brokers, RTA and CDPs participating in the Offer. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of, BSE (www.bsesme.com) and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchange and SEBI.

AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of abridged prospectus shall be available on the website of the Company, BRLM and BSE at

SYNDICATE MEMBER: Fortune Fiscal Limited BANKERS TO THE OFFER/SPONSOR BANK/ESCROW COLLECTION BANK/PUBLIC OFFER BANK/REFUND BANK: Axis Bank Limited

UPI: UPI Bidders can also Bid through UPI Mechanism

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For Prodocs Solutions Limited

On Behalf of the Board of Directors Sd/-

Nidhi Parth Sheth

DIN: 08386886

Date: December 2, 2025

Place: Mumbai

Managing Director

Prodocs Solutions Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP with Registrar of Companies on December 2, 2025. The RHP shall be available on the website of the BRLM to the Offer at www.cumulativecapital.group and website of BSE i.e. www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled "Risk Factors" beginning on page 31 of the RHP. Potential investors should not rely on the RHP for making any investment decision

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Recurities and unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any applicable U.S. state securities laws. There will be no public offering in the United States and the securities being offered in this announcement are not being offered or sold in the United States.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

KAMDHENU

KAMDHENU LIMITED CIN:L27101HR1994PLC092205

AMDHENU Regd. Office: 2" Floor, Tower A, Building No. 9, GROUP DLF Cyber City, Phase-III, Gurugram (Haryana)-122002 Ph.: 91-124-4604500 Email: cs@kamdhenulimited.com Website: www.kamdhenulimited.com

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

The final notice is hereby given that pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2" July, 2025, a special window that has been opened for a period of six months from 7" July, 2025 till 6" January, 2026 for re-lodgement of transfer deeds.

This applies to transfer deeds lodged before 1" April, 2019, that were rejected or returned due to deficiencies in documents or process and missed 31" March, 2021 deadline. Accordingly eligible shareholders are encouraged to re-lodge such deeds along with requisite documents within special window period to the Company's RTA i.e Kfin Technologies Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032, Tel: +91-40-67161517, email id: einward,ris@kfintech.com Please note that the shares re-lodged for transfer shall be processed only in

demat mode. For Kamdhenu Limited

Date: 02.12.2025 Place : Gurugram

Sd/-Khem Chand Company Secretary & Compliance Officer FCS: 10065



KAMDHENU VENTURES LIMITED [CIN: L51909HR2019PLC089207]

www.prodocssolution.com, www.cumulativecapital.group and www.bsesme.com respectively.

Regd. Office: 2nd Floor, Tower-A, Building No. 9, DLF Cyber City, Phase-III, Gurugram, Haryana-122002, Phone: 0124-4604500. E-mail: cs@kamdhenupaints.com Website: www.kamdhenupaints.com

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

The final notice is hereby given that pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2" July, 2025, a special window that has been opened for a period of six months from 7" July, 2025 till 6" January, 2026 for re-lodgement of transfer deeds.

This applies to transfer deeds lodged before 1" April, 2019, that were rejected or returned due to deficiencies in documents or process and missed 31" March, 2021 deadline. Accordingly, eligible shareholders are encouraged to re-lodge such deeds along with requisite documents within special window period to the Company's RTA i.e Skyline Financial Services Private Limited, D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, Delhi-110020, Tel: 011-40450193-97 & 011-26812682-83, email id: admin@skylinerta.com Please note that the shares re-lodged for transfer shall be processed only in

demat mode. For Kamdhenu Ventures Limited

> Sunil Kumar Agarwal Chairman M.No. 00005973

PUBLIC DISCLAIMER

We have become aware that fraudsters are falsely claiming association with Edelweiss Global Wealth Management Limited and Edelweiss Financial Services Ltd. (EFSL) subsidiaries. These scammers are misusing Edelweiss name, logo, and brand through fake WhatsApp groups, social media channels, and fraudulent mobile apps (including "EDELHNW", "EDELHNW+", "EDELPRO"), impersonating our officials and circulating fake trading advisories and investment tips.

We categorically state that Edelweiss has no connection with these fraudulent applications, groups, channels, or individuals. These activities are entirely unauthorized and illegal.

We have reported these incidents to the Police and strongly urge the public to remain vigilant. Do not engage with or invest through any such platforms. Edelweiss entities will not be liable for any losses or consequences arising from such fraudulent activities.

Stay alert. Stay safe.

New Delhi

Edelweiss Global Wealth Management Limited Corporate Identity Number: U67100MH2007PLC353035

Registered Office: Edelweiss House, 15" Floor, Off. C.S.T. Road, Kalina, Mumbai - 400 098 Tel No.: +91 22 4079 5199

epaper.financialexpress.com

Date: 02.12.2025

Place : Gurugram

Continue From Previous Page...

ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS

Details of proposed / undertaken pre-offer placements from the DRHP filling date: Our Company has not undertaken any Pre-IPO Placements from the DRHP filing date.

Transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the Company by promoter(s) and promoter group(s) from the DRHP filing date.: Our promoter(s) and promoter group(s) has not undertaken any transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the company from the DRHP filing date.

Shareholding of the Promoter/Promoter Group and Additional Top 10 Shareholders of the Company:

	Pre-Offer Shareholding as at the Date of Advertisement			Post-Offer Shareholding as at Allotment ⁽³⁾			
Sr. No.	2		Shareholding	At the lower end of the price band (₹ 131)		At the higher end of the price band (₹ 138)	
	Shareholders		(in%) ⁽²⁾	Number of Equity Shares ⁽²⁾	Share Holding (in %)®	Number of Equity Shares®	Share Holding (in %) ⁽²⁾
Promote	er and Promoter Group ⁽¹⁾						
1,	Onus Digital Services Private Limited	18,00,000	33.03	16,00,000	22.70	16,00,000	22.70
	Pallavi Hiren Kothari	11,40,000	20.92	10,00,000	14.18	10,00,000	14.18
	Manan H Kothari	6,60,000	12.11	6,60,000	9.36	6,60,000	9.36
	Nidhi Parth Sheth	1,50,000	2.75	1,50,000	2.13	1,50,000	2.13
	Forum Abhay Kapashi	Nil	NA	Nil	NA	Nil	NA
	Khyati Ritesh Sanghavi	1,50,000	2.75	1,20,000	1.70	1,20,000	1.70
	Khushboo Shah	1,50,000	2.75	1,20,000	1.70	1,20,000	1.70
Addition	al Top 10 Shareholders*		10				***
1.	Rahul Bhatia	5,00,000	9.17	5,00,000	7.09	5,00,000	7.09
2.	Malti Rahul Bhatia	2,00,000	3.67	2,00,000	2.84	2,00,000	2.84
3.	Atul Devchand Shah	1,00,000	1.83	1,00,000	1.42	1,00,000	1.42
4.	Hiten Kantilal Parekh	75,000	1.38	75,000	1.06	75,000	1.06
	Shilpa Parag Kothari	75,000	1.38	75,000	1.06	75,000	1.06
	Hem Parag Kothari	75,000	1.38	75,000	1.06	75,000	1.06
5.	Darshana Atul Shah	62,500	1.15	62,500	0.89	62,500	0.89
	Mehul Atul Shah	62,500	1.15	62,500	0.89	62,500	0.89
6.	Rita Hiten Parekh	50,000	0.92	50,000	0.71	50,000	0.71
	Hiten K Parekh HUF	50,000	0.92	50,000	0.71	50,000	0.71
	Parag Jagdish Kothari	50,000	0.92	50,000	0.71	50,000	0.71
	Jeel Divyesh Parekh	50,000	0.92	50,000	0.71	50,000	0.71
7.	Megha Atul Shah	25,000	0.46	25,000	0.35	25,000	0.35
5003	Navin Popatlal Shah	25,000	0.46	25,000	0.35	25,000	0.35
	Total	54,50,000	100	50,50,000	71.63	50,50,000	71.63

The Promoter Group shareholders are Khyati Ritesh Sanghavi and Khushboo Shah.

(2) Includes any transfers of equity shares by existing shareholders after the date of the pre-offer and price band advertisement until date of prospectus and there is no any outstanding options that have been exercised until date of prospectus.

(3) Assuming full subscription in the Offer. The post-offer shareholding details as at the allotment will be based on the actual subscription and the final offer price and updated in the prospectus, subject to finalization of the basis of allotment. Also, this assumes there is no transfer of shares by these shareholders between the date of the advertisement if any such transfers occur prior to the date of prospectus, it will be updated in the shareholding pattern in the prospectus.

Investors should read the RHP carefully, including the "Risk Factors" on page 31 of the RHP before making any investment decision.

BASIS FOR OFFER PRICE

The "Basis for Offer Price" on page 109 of the Red Herring Prospectus has been updated with the above price band. Please refer to the website of the BRLM i.e. www.cumulativecapital.group for the "Basis for Offer Price" updated with the above price band or scan the QR code for the "Basis for Offer Price" updated with above price band.

INDICATIVE TIMELINE					
Sequence of Activities	Listing within T+3 days (T is Offer Closing Date)				
Application Submission by Investors	Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) For Individual Investor - Upto 5 pm on T Day. Electronic Applications (Bank ASBA through Online Channels like: Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA etc.) - Upto 3 pm on T Day. Electronic Applications (Syndicate Non -Individual, Non- Institutional Applications) - Upto 3 pm on T Day. Physical Applications (Bank ASBA) -Upto 1 pm on T Day. Physical Applications (Syndicate Non -Individual, Non- Institutional Applications) -Upto 12 pm on T Day and Syndicate members shall transfer such applications to banks before1 pm on T Day.				
Validation of bid details with depositories	From Offer closing date up to 5 pm on T Day.				
Reconciliation of UPI mandate transactions (Based on the guidelines issued by NPCI from time to time): Among Stock Exchanges - Sponsor Banks - NPCI and NPCI - PSPs/TPAPS-Issuer Bank; Reporting formats of bid information, UPI analysis report and compliance timelines.	On daily basis: Merchant Bankers to submit to SEBI, sought as and when				
UPI Mandate acceptance time	T day - 5 pm				
Offer Closure T day	T Day - 3 pm for QIB and NII categories, T Day - 3 pm for Individual investors and other reserved categories				
Third party check on UPI applications	On daily basis and to be completed before 9:30 am on T+1 day.				
Third party check on Non- UPI applications Submission of final certificates: -For UPI from Sponsor Bank -For Bank ASBA, from all SCSBs -For syndicate ASBA UPI ASBA	On daily basis and to be completed before 1 pm on T+1 day. Before 9:30 pm on T + 1 day All SCSBs for Direct ASBA - Before 07:30 pm on T Day Syndicate ASBA - Before 07:30 pm on T Day.				
Finalization of rejections and completion of basis	Before 6 pm on T+1 day.				
Approval of basis by Stock Exchange	Before 9 pm on T+1 day.				
Issuance of fund transfer instructions in separate files for debit and unblock. For Bank ASBA and Online ASBA – To all SCSBs For UPI ASBA – To Sponsor Bank	Intimation not later than 9:30 am on T + 2 day. Completion before 2 pm on T + 2 day for fund transfer; Completion before 4 pm on T + 2 day for unblocking				
Corporate action execution for credit of shares	Intimation before 2 pm on T + 2 day Completion before 6 pm on T+ 2 day				
Filing of listing application with Stock Exchanges and issuance of trading notice	Before 7:30 pm on T+2 day				
Publish allotment advertisement	On the website-of issuer, Merchant Banker and RTA - before 9 pm on T + 2 day. In Newspaper - on T + 3 day but not later than T + 4 day				
Trading starts T+3 day	T+3 day				
FORESTONIA DE PRODUCTION DE PRODUCTION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTR	I Company of the Comp				

Bid/Offer Program

Event	Indicative Dates
Bid/ Offer Opening Date*	Monday, December 8, 2025
Bid/ Offer Closing Date** ^	Wednesday, December 10, 2025
Finalization of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange	On or before Thursday, December 11, 2025
Initiation of Allotment / Refunds / Unblocking of Funds from ASBA Account or UPI ID linked bank account***	On or before Friday, December 12, 2025
Credit of Equity Shares to Demat accounts of Allottees	On or before Friday, December 12, 2025
Commencement of trading of the Equity Shares on the Stock Exchange	On or before Monday, December 15, 2025

*Our Company and Selling Shareholders, in consultation with and the Book Running Lead Manager, may consider participation by Anchor Investors, in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The Anchor Investor Bid/ Offer Period will be one Working Day prior to the Bid/ Offer Opening Date in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

** Our Company and Selling Shareholders, in consultation with the Book Running Lead Manager, may decide to close the Bid/Offer Period for QIBs one

Working Day prior to the Bid/ Offer Closing Date in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

***In case of any delay in unblocking of amounts in the ASBA Accounts (including amounts blocked through the UPI Mechanism) exceeding 2 (two) Working Days from the Bid/Offer Closing Date for cancelled/withdrawn/deleted ASBA Forms, the Bidder shall be compensated at a uniform rate of ₹ 100 per day or 15% per annum of the Bid Amount, whichever is higher, for the entire duration of delay exceeding 2 (two) Working days from the Bid/Offer Closing Date by the intermediary responsible for causing such delay in unblocking. The BRLM shall, in their sole discretion, identify and fix the liability on such intermediary or entity responsible for such delay in unblocking. For the avoidance of doubt, the provisions of the SEBI circular dated March 16, 2021, as amended pursuant to SEBI circular dated June 2, 2021 shall be deemed to be incorporated in the deemed agreement of the Company with the SCSBs, to the extent applicable. CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 176 of the RHP. The Memorandum of Association of our Company is a material

LIABILITY OF MEMBERS OF THE COMPANY: Limited by shares. AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The authorized share capital of the Company is ₹ 8,00,00,000 divided into 80,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each. The Offered, subscribed, and paid-up share capital of the Company before the Offer is ₹ 5,45,00,000 divided into 54,50,000 Equity Shares of ₹ 10/- each. For details of the Capital Structure, see chapter titled "Capital Structure" beginning on page 78 of the RHP.

document for inspection in relation to the Offer. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 341 of the RHP.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: Nidhi Parth Sheth (5,000 Equity Shares) and Khyati Ritesh Sanghavi (5,000 Equity Shares) of ₹ 10/- each.

LISTING: The Equity Shares Offered through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE SME") in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended from time to time. Our Company has received an approval letter dated September 19, 2025, from BSE for using its name in the Offer Document for listing of our shares on the SME Platform of BSE. For the purpose of this Offer, the Designated Stock Exchange will be the BSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): Since the Offer is being made in terms of chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 273 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE ("BSE SME") (The designated stock exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way be deemed of construed that the contents of the Offer Document or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer the Offer Document for the full text of the Disclaimer Clause of BSE.

The investors are advised to refer to page 275 of the RHP for the full text of the Disclaimer Clause of BSE.

CREDIT RATING

This being the Offer of Equity Shares, no credit rating is required.

DEBENTURE TRUSTEE

This being the Offer of Equity Shares, the appointment of Trustees is not required.

UPI mandate end time and date shall be at 5:00 pm on the Bid/Offer Closing Date.

IPO GRADING

Since this Offer is made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, there is no requirement of appointing an IPO Grading Agency. TRACK RECORD OF BOOK RUNNING LEAD MANAGER:

The Merchant Banker associated with the Offer has handled 3 SME public issues since Inception.

GENERAL RISK: Investments in Equity and Equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the offer including the risks involved. The Equity Shares Offered in the Offer have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section "Risk Factors" beginning on page 31 of the Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE OFFER



Cumulative Capital Private Limited Address: B 309-311, 215 Atrium, Nr. Courtyard

Marriott Hotel, Andheri Kurla Road, Andheri East, Chakala MIDC, Mumbai- 400093, Maharashtra,

Telephone: +91 981 966 2664 / +91 9870924935

Facsimile: NA

Email: contact@cumulativecapital.group Website: www.cumulativecapital.group

Investor Grievance Email: investor@cumulativecapital.group

Contact Person: Swapnilsagar Vithalani/

Hetal Mulji Gajra SEBI registration number: INM000013129

CIN: U64910MH2023PTC414974

REGISTRAR TO THE OFFER

MUFG MUFG Intime India Private Limited

Address: C-101, 247 Park, 1st Floor, L B S Marg. Vikhroli (West), Mumbai 400083, (Maharashtra)

Telephone: +91 810 811 4949

Facsimile: NA Email:

prodocssolutions.smeipo@in.mpms.mufg.com

Investor Grievance Email: prodocssolutions.smeipo@in.mpms.mufg.com Contact Person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration Number: INR000004058

CIN: U67190MH1999PTC118368

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER Meghha Trivedi

Company Secretary & Compliance Officer **Prodocs Solutions Limited** Address: 6/19, 1st Floor, Transmission House,

Compound No. 82, MIDC, Near M.V. Road, Andheri East, Mumbai - 400059, Maharashtra

Email: secretarial@prodocssolution.com

Tel No: +91 226231 5800 Website: www.prodocssolution.com

Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Offer in case of any Pre-Offer or Post-Offer related grievances including non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted equity shares in the respective beneficiary account, nonreceipt of refund orders or non-receipt of funds by

electronic mode, etc. For all Offer related gueries and for

redressal of complaints, investors may also write to the

AVAILABILITY OF RHP: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Red

Herring Prospectus and the Risk Factor contained therein, before applying in the Offer. Full copy of the Red Herring Prospectus shall be available at the website of Stock Exchange www.bseindia.com, the website of Book Running Lead Manager: www.cumulativecapital.group; and from the Registered Office of the Company.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Prodocs Solutions Limited (Telephone: +91 2262315800) BRLM: Cumulative Capital Private Limited (Telephone: +91 9819662664) Syndicate Member: Fortune Fiscal Limited (Telephone: +91 9925746841), Registered Brokers, RTA and CDPs participating in the Offer. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of, BSE (www.bsesme.com) and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchange and SEBI.

AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of abridged prospectus shall be available on the website of the Company, BRLM and BSE at

www.prodocssolution.com, www.cumulativecapital.group and www.bsesme.com respectively. SYNDICATE MEMBER: Fortune Fiscal Limited

BANKERS TO THE OFFER/SPONSOR BANK/ESCROW COLLECTION BANK/PUBLIC OFFER BANK/REFUND BANK: Axis Bank Limited UPI: UPI Bidders can also Bid through UPI Mechanism

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For Prodocs Solutions Limited

On Behalf of the Board of Directors

Sd/-

Nidhi Parth Sheth

DIN: 08386886 **Managing Director**

Date: December 2, 2025

Place: Mumbai

Prodocs Solutions Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP with Registrar of Companies on December 2, 2025. The RHP shall be available on the website of the BRLM to the Offer at www.cumulativecapital.group and website of BSE i.e. www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled "Risk Factors" beginning on page 31 of the RHP. Potential investors should not rely on the RHP for making any investment decision

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Act of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities act of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities act of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect") or any state securities act of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect") or any state securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (the "Securities Rect") or any state securities Rect of 1933, as amended (t in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any applicable U.S. state securities laws. There will be no public offering in the United States and the securities being offered in this announcement are not being offered or sold in the United States.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

KAMDHENU

KAMDHENU LIMITED CIN:L27101HR1994PLC092205

AMDHENU Regd. Office: 2" Floor, Tower A, Building No. 9, GROUP DLF Cyber City, Phase-Ill, Gurugram (Haryana)-122002 Ph.: 91-124-4604500 Email: cs @kamdhenulimited.com Website: www.kamdhenulimited.com

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

The final notice is hereby given that pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2" July, 2025, a special window that has been opened for a period of six months from 7" July, 2025 till 6" January, 2026 for re-lodgement of transfer deeds.

This applies to transfer deeds lodged before 1" April, 2019, that were rejected or returned due to deficiencies in documents or process and missed 31" March, 2021 deadline. Accordingly eligible shareholders are encouraged to re-lodge such deeds along with requisite documents within special window period to the Company's RTA i.e Kfin Technologies Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032, Tel: +91-40-67161517, email id: einward.ris@kfintech.com Please note that the shares re-lodged for transfer shall be processed only in

demat mode. For Kamdhenu Limited

Date: 02.12.2025 Company Secretary & Compliance Officer Place : Gurugram

Sd/-Khem Chand FCS: 10065



Date: 02.12.2025

Place : Gurugram

KAMDHENU VENTURES LIMITED [CIN: L51909HR2019PLC089207]

Regd. Office: 2nd Floor, Tower-A, Building No. 9, DLF Cyber City, Phase-III, Gurugram, Haryana-122002, Phone: 0124-4604500. E-mail: cs@kamdhenupaints.com Website: www.kamdhenupaints.com

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

The final notice is hereby given that pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2" July, 2025, a special window that has been opened for a period of six months from 7" July, 2025 till 6" January, 2026 for re-lodgement of transfer deeds.

This applies to transfer deeds lodged before 1" April, 2019, that were rejected or returned due to deficiencies in documents or process and missed 31" March, 2021 deadline. Accordingly, eligible shareholders are encouraged to re-lodge such deeds along with requisite documents within special window period to the Company's RTA i.e Skyline Financial Services Private Limited, D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, Delhi-110020, Tel: 011-40450193-97 & 011-26812682-83, email id: admin@skylinerta.com

Please note that the shares re-lodged for transfer shall be processed only in demat mode. For Kamdhenu Ventures Limited

> Sunil Kumar Agarwal Chairman

> > M.No. 00005973

PUBLIC DISCLAIMER

We have become aware that fraudsters are falsely claiming association with Edelweiss Global Wealth Management Limited and Edelweiss Financial Services Ltd. (EFSL) subsidiaries. These scammers are misusing Edelweiss name, logo, and brand through fake WhatsApp groups, social media channels, and fraudulent mobile apps (including "EDELHNW", "EDELHNW+", "EDELPRO"), impersonating our officials and circulating fake trading advisories and investment tips.

We categorically state that Edelweiss has no connection with these fraudulent applications, groups, channels, or individuals. These activities are entirely unauthorized and illegal.

We have reported these incidents to the Police and strongly urge the public to remain vigilant. Do not engage with or invest through any such platforms. Edelweiss entities will not be liable for any losses or consequences arising from such fraudulent activities.

Stay alert. Stay safe.

Edelweiss Global Wealth Management Limited Corporate Identity Number: U67100MH2007PLC353035

Registered Office: Edelweiss House, 15" Floor, Off. C.S.T. Road, Kalina, Mumbai - 400 098 Tel No.: +91 22 4079 5199

epaper.financialexpress.com

सँ र सुपना हे अनुसार

· 1,82,43,506.39/-

रेतालीस हजार पाँच सी प

रुपये और एनतालीस पैसे मान

+ ब्याज जोकि दिनाक 01.08.

प्राधिकृत अधिकारी

'IMPORTANT'

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, its not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as aresult of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies

and necessary inquiries efore sending any monies rentering into any greements with advertisers

r otherwise acting on ar dvertisement in any

2025 से और अन्य देय सर्च ।

02

बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली अस्ति वसूली शाखा, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र एम–125, ब्लॉक एम, विकासपुरी, नई दिल्ली—110018 ई-नीलामी बिक्री सूचना

सम्पतियों की ई-नीलामी -24.12.2025 शुद्धिपत्र

इस समाचार पत्र में दिनांक 29.11.2025 को पेज इस समाचार पत्र म । दनाक 29.11.2025 का पज नंबर 21 पर प्रकाशित उपरोक्त के सम्बंध में विज्ञापन में मेसर्स रोहन इंडस्ट्रीज के कब्जा की तारीख को 09.03.2025 की जगह "28-08-2025" पढ़े व माने और नियम औं शर्तों में के सं. 7 में "75% पेमेंट का समय 30 दिनों की जगह "15 दिन" पढ़े व माने तथा विज्ञापन के नीचे तारीख को 28.12.2025 की

बाकी यथावत रहेगा। प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया



कामधेन वेंचर्स लिमिटेड

[सीआईएन: L51909HR2019PLC089207] मंजीकृत कार्यालयः 2री मंजिल, टॉवर-ए, बिल्डिंग नं. ९, डीएलएफ साइवर सिटी, फेज-III, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, फोनः 0124-4604500, ईं-मेलः cs@kamdhenupaints.com वेबसाइटः www.kamdhenupaints.com

सेबी सर्कुलर दी जाती है कि SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसरण में हस्तांतरण विलेखों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक की छह महीने

यह उन हस्तांतरण विलेखों पर लागू होता है जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले जमा किए गए थे, लेकिन दस्तावेजों या पुक्रिया में कमियों के कारण अस्वीकार या वापस कर दिए गए थे और 31 मार्च. 2021 की समय सीमा चक गए थे। तदनसार, पात्र शेयरधारकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऐसे विलेखों को विशेष विंडो अवधि के भीतर कंपनी के आरटीए अर्थात स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी-153ए, 1ली मंज़िल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, दिल्ली-110020 दूरभाषः 011-40450193-97 और 011-26812682-83, ईमेल आईडीः <u>admin@skylinerta.com</u>

कार्रवाई की जाएगी।

कामधेन वेंचर्स लिमिटेड के लि हस्ता./

> सुनील कुमार अग्रवाल अध्यक्ष

स्थानः गुरुग्राम

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

प्रथम तल, एससीओ 33–34–35, सेक्टर–17ए, चंडीगढ़, (तृतीय और चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

अधिनियम की घारा 19 की उप-घारा (4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) कें तहत Exh No. 28547

इंडियन बैंक बनाम

मेसर्स वैष्णों कॉर्टन इंडस्ट्रीज एवं अन्य

(1) मैसर्स वैष्णो कार्टन इंडस्ट्रीज और अन्य

मैसर्स वैष्णो कार्टन इंडस्ट्रीज अपने मालिक श्री हरीश कुमार सी /ओ जगदम्बा इंजी. वर्क्स के माध्यम से, मंगलम अस्पताल के पीछे, गुरुग्राम हरियाणा दूसरा पता:— खेवट / खाता नंबर 753 / 625, मस्जिद नंबर 18, कादीपुर औद्योगिक क्षेत्र, गली नंबर 7, गुरुग्राम हरियाणा गुड़गांव, हरियाणा **इसके अलावा:** मैसर्स वैष्णों कार्टन इंडस्टीज अपने मालिक श्री हरीश कमार के माध्यम से खेवट / खाता नंबर 753 / 625, मस्जिद नंबर पर 18, कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, गली

रेयाणा —600014

सम्मन

जबिक, औए / 1430 / 2024 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष 12.11.2025 को प्रस्तुत किया गया था।

जबिक, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. **34,460,71/-** के ऋण की वसूली के लिए आपके विरूद्ध दाखिल किए गए (ओ.ए.) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर

अधिनियम की घारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्न निर्देश दिया जाता है:-(i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि मांगी गई राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए; (ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3। के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के

अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों से निपटने या उनका निपटान करने से रोका जाता है संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान लंबित है;

(iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हित सुजित किया गया है तथा/अथवा मूल . आवेदन के क्रमांक 3। के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री पटटा अथवा अन्य प्रकार से आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे:

हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे। आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा **दिनांक** 08.01.2026 को पूर्वी. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपरिथति में किया जाएगा

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर **27.11.2025** को दिया गया। प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर सम्मन जारी करने हेतु



एन टी पी सी लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, कोर-7, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003. फोन: 011-24367072, फैक्स: 011-24361018

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकर (लेखा, ऑडिट, अंतरण एवं प्रतिदाय) नियम, 2016 (आयईपीएफ नियम, 2016) के अनुसार, यदि किसी शेयरधारक का लाभांश सात (7) साल तक नहीं लिया गया है, तो उस राशि को ["]निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष" (आयईपीएफ) में जमा करना अनिवार्य होता है, जिसे भारत सरका द्वारा स्थापित किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) और आयईपीएफ नियम, 2016 के अनुसार, जिन शेयरों पर लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश नहीं लिया गया है,

जानकारी कंपनी की वेबसाइट https://ntpc.co.in/iepf-details/iepf-account पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 का अंतरिम डिविडेंड ₹3.58 प्रति शेयर की दर से 14 फरवरी 2019 क दिया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार,इस डिविडेंड की न ली गई या बिना दावा की गई राशि अब आयईपीएफ में ट्रांसफर की जानी है। जिन शेयरधारकों ने लगातार सात वर्षों तक

शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई राशि या शेयर आयईपीएफ में ट्रांसफर हो जात है, तो उन्हें वापस पाने के लिए आयईपीएफ नियम, 2016 के तहत तय प्रक्रिया अपनानी होगी और 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण' से क्लेम करना होगा।

शेयरधारक, अपने बिना दावे वाले/ भुगतान न हुए डिविडेंड या शेयरों के बारे में, जिन्हे आयईपीएप खाते में ट्रांसफर किया जाना है, अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.ntpc.co.in व 'निवेशक' सेक्शन में 'आयईपीएफ विवरण' देख सकते हैं। 'निवेशक शिक्षा और सरक्षण निधि प्राधिकरण' से रिफंड/ शेयर का दावा करने की असुविधा से बचने के लिए जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2018- 19 के अंतरिम डिविडेंट (जिसका भुगतान फरवरी 2019 में हुआ था) का वॉरंट प्राप्त नहीं किया है या उसे नकद नहीं कराया है. वे अपना दावा आरटीए के पास दर्ज कर सकते हैं। आरटीए का पता है: बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पींछे, दादा हरसुखदास मंदिर के पास, नई दिल्ली-110062 फोन: (011) 29961281, 29961283, फैक्स: (011) – 2996128 ईमेल: ntpc@beetalfinancial.com या वे उप नोडल अधिकारी, निवेशक सेवा विभाग एनटीपीसी लिमिटेड के पास ऊपर बताए गए पते पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मार्च 2026 तक या उससे पहले मिल जाए, ताकि आपके बिना दावे वाले डिविडेंट और शेयर, फंड में टांसफर न हों।

एनटीपीसी लिमिटेड ने 2013 और 2015 में टैक्स-फ्री बॉन्ड्स भी जारी किए थे। निवेशकों र अनुरोध है कि वे इन टैक्स फ्री बॉन्ड्स पर बकाया ब्याज राशियों की जानकारी एनटीपीसी वेबसाइ www.ntpc.co.in के "निवेशक" सेक्शन में देखें और अपनी दावा प्रक्रिया पूरी करें।

दावा करने के लिए : केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (जो इन बांड्स के रजिस्ट्रार हैं) रं संपर्क करें: पता : सेलेनियम टॉवर-बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, गचीबोवली फाइनेंसियत डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500032, फ्रोन नंबर: 1800-3094001 ईमेल: einward.ris@kfintech.com या फिर एनटीपीसी लिमिटेड के निवेशक सेवा विभाग के उप-नोडल अधिकारी से संपर्क करें।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी ईमेल आईडी और और अन्य आवश्यक जानकारी अपडेट रखें यदि शेयर डीमैट रूप में हैं, तो अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ,और यदि शेयर भौतिक रूप (फिजिकल फॉर्म) में हैं, तो कंपनी या रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ।

हस्ताक्षरित (ऋतु अरोड़ा)

कंपनी सचिव और अनपालन अधिका दिनांक: 03.12.2025 सदस्य संख्या: F5270 स्थान: नई दिल्ली

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 {कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए)

के मामले में डेसिबल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड

(सीआईएन: U92100DL2010PTC204060) जिसका पंजीकृत कार्यालय : 138ए / 4बी / 9 किशन गढ़, वसंत कुंज, नई दिल्ली,

भारत—110070 में हैं, के मामले मेंआवेदक कंपनी /याचिकाकत

रतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी आधेरियम, २०१३। के भारत के अधीन आवेदन का अधिनियम, २०१३ की धारा १३ के अधीन आवेदन का अस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्रसाप प्रसान, जिसमें प्रमानिक पंजामूरी कार्यायय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "कर्नाटक राज्य"में स्थानांतरित करने के लिए 28 नवंबर, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष अस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल** कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) मे शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी** क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी—2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकत कार्यालय पते

138ए / 4बी / 9, किशन गढ़, वसंत कुंज, नई दिल्ली, भारत— 110070

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर रं डेसिबल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड हस्ता /

हरविंदरजीत सिंह भाटिया दिनांक : 03.12.2025 (निदेशक) **डीआईएन:** 01681292 स्थान : नई दिल्ली



एन्वाइरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड CIN: L37003DL2009PLC191418

पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 201, द्वितीय तल आर. जी. मेट्रो आर्केड, सेक्टर-11, रोहिणी नई दिल्ली - 110085 फोन: 011-40591549 ईमेल: investors.relation@eiepl.in

वेबसाइट: www.eiel.in डाक मतपत्र अधिसूचना एवं रिमोट ई-वोटिंग निर्देश यह अधिसूचना द्वारा जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 108, 110 तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ('MCA') द्वारा जारी लागू दिशानिर्देशों/परिपत्रों, सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों ए विनियमों में समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार, **एन्वाइरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड** ("कॅपनी") अपने सदस्यों की स्वीकति डाक मतपत्र के . माध्यम से केवल रिमोट ई-वोटिंग ('ई-वोटिंग') द्वारा प्राप्त कर रही है, जैसा कि डाक मतपत्र नोटिस दिनांक 25 नवंबर, 2025 ("नोटिस") में उल्लेखित है। यह नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.eiel.in/investor पर, Bigshare Services Private Limited ('Bigshare') की वेबसाइट https://ivote.bigshareonline.com_पर तथा भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> पर उपलब्ध है। सदस्यों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है: a) MCA परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने मंगलवार 02 दिसंबर 2025 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा नोटिस (जिसमें मसौदा प्रस्ताव, स्पष्टीकरण वक्तव्य, ई-वोटिंग विवरण तथा रिमोट ई-वोटिंग की विस्तुत प्रक्रिया/निर्देश आदि शामिल हैं) उन सदस्यों को भेजा है, जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('DP') के साथ पंजीकृत हैं और जिनके नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 ('कट-ऑफ तिथि') को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं। b) कंपनी ने अपने सदस्यों के लिए Bigshare के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई है, ताकि वे नोटिस में निर्दिष्ट प्रस्ताव पर अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकें। कृपया ध्यान दें कि MCA परिपत्रों के पालन में, सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर स्वीकृति/अस्वीकृति के लिए केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली ही मान्य होगी। अतः MCA परिपत्रों के अनुसार नोटिस, डाक मतपत्र फॉर्म तथा प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे की भौतिक प्रति को नहीं भेजी गई है। c) सदस्यों के मतदान अधिकार कंपनी की

रूप में सदस्य नहीं हैं, वे इस नोटिस को केवल सूचना हेतु मानें। d) रिमोट ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 03 दिसंबर 2025 सुबह 9:00 बजे (IST) से प्रारंभ होकर गरुवार. 01 जनवरी 2026 शाम 5:00 बजे (IST तक चलेगी। उपर्युक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी तथा Bigshare द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा एक बार सदस्य द्वारा वोट डाल दिए जाने पर उसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा e) किसी भी प्रकार की पछताछ, स्पष्टीकरण या रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित शिकायत के

भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी में उनके

हिस्से के अनुपात में होंगे, जो कट-ऑफ तिथि

तक लागू होगा। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि के

लिए सदस्य https://ivote.bigshareonline com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध FAQ ई-वोटिंग मॉड्यूल देखें या ivote@bigshareonline.com पर ईमेल करें या 1800 22 54 22 पर संपर्क करें। सदस्य

कंपनी सचिव को investors.relation@eiepl.in पर भी लिख सकते हैं। f) चूँिक कंपनी की संपूर्ण शेयरहोिल्डंग डिमैटेरियलाइज्ड रूप में है, अतः सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते

पंजीकृत/अपडेट करें। g) निदेशक मंडल ने श्री आलोक जैन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (ACS 30369; COP No.:14828) को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच हेतु स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया है। उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी है और उक्त उद्देश्य के लिए उपलब्ध रहेंगे। h) डाक मतपत्र/ई-वोटिंग के परिणाम सोमवार, 05 जनवरी 2026 या उससे पहले घोषित किए जाएंगे। मतदान परिणाम एवं स्क्रूटिनाइज़र की

रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.eiel.in पर, Bigshare की वेबसाइट https://ivote.bigshareonline.com पर तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित की जाएगी। परिणाम उन स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजे जाएंगे जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। एन्वाइरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड के लिए

दिनांक: 02.12.2025

स्थान: नई दिल्ली

हस्ताक्षरित/-पियूष जैन (कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

पंजाब नैशनल आरित वसूनी प्रबंधन शास्त्रा चर्किन ऑफिस आगरा: 1-2. रचनाथ नगर, बडात्मा गांधी गार्ग, आगरा फोन नम्बर- 6562-2525315, ईनैल-cs8162@cnb.co.in

अचल सम्पत्ति का कब्जा सूचना

(प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत)

विलीय आरितने का प्रतिभूतिनरण व मुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रकांन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभृति हित (प्रकांन) नियम, 2002 के नियम-3 के साथ सहप्रतित धारा-3 (12) के अन्तर्गत प्रदेश राखिएयाँ का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनत वैक के प्रतिकृत अधिकारी ने निम्नतिक्षित वकायेयार ऋषियों/ चारन्दर्ग / केवकावाओं / कानुनी वारिसों को नोटिस में वर्षित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु खाते के सम्पूछ अधिव तिथि को मीन नोटिस जारी किया था। ऋषियों / गारन्दर्ग / वंबककावीजों / कानुनी पारिसों के हारा हुए राशि की अदायनी में विकल फूने पर एतदहास आन जनात को एवं आणियों / गारकरों / बाउककरोंओं / कानूनी धारिसों को विशेष रूप से सूबना दी जाते हैं कि नीचे वर्षित सम्वदित का वरावे अयिनियम की पारा–13 (4) एवं नियम के उपनियम–8 के असानत प्रयत्न जनितमों का प्रयोग करते हुए अयोहस्तवारी द्वारा आधिपतर उनके सम्पूख ऑक टिपि को कर लिया गया है। उधारकर्ताओं का प्यान सुरक्षित परिसम्पत्ति को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बंध में अधिनियम की पाँस 13 वं १४–घारा (८) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है। एसदुद्वारा नहिंग्यों / गरन्तरों / बंधककर्ताओं / कानूमी बारिसों को विशेषतः और जनसाधार को सामाध्यत सूचित किया जाता है कि चूंकि निम्न राम्पत्ति का सौंकेतिक कब्जा /मीतिक कब्जा अधिव्रहोंम कर लिया गया है, अत. इस सम्बन्ध में किसे प्रकार का कोई भी सीदा /व्यवहार वैक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सीदा /व्यवहार पंजाब नैशनत बैंक को देय वांत्रि र लाम्बन्धित ब्याज हेनु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख जल्लेखित किया गया है, के अध्यादीन होगा।

काणियाँ / गारन्टरों / बंधकवर्ताओं / कानुमी पारिसों का ध्यान, एक्ट के सेक्शन-13 के सब संब्रान (6) की और आकर्षित किया जाता है

कि वे उपलब्ध समय में वैक के देशों को खकता कर बंधक सम्पत्ति को वाविस छुदा लें। ऋणियाँ / गारन्टरों / बंधक सम्पत्ति का विवरण

बंधककर्ताओं के नाम प्रान्तिक बंधक सम्पत्ति रिधत रहसरा नम्बर 542/1. **अटणी / बंधककता / नारम्टर** 25 सर्व सरोजनी फुडरा चेन पमकारी, आगरा रोड, परगना एटा, सकीट, तहसील एवं जिल 80 ग्बस्ट्रीज (मालिक श्री जितेन एटा, मापने योग्य क्षेत्रफल 4250 वर्ग गीटर, राम्पति-जितेन्द मार यादव पुत्र श्री कंगलेन्द्र (रोह) कुमार यादय पुत्र श्री कमलेन्द्र सिंह के नाम वीहद्दी:-पूर्व-श्री नरेन्द्र सिंह की सम्पत्ति, परिवम-एटा से र्गर श्री जिलेन्द्र कुमार यादय पुत्र श्री प्रागरा रोड. एतर-श्री वरंच्य सिंह की राम्पत्ति, दक्षिग-श्री व्मलेन्द्र सिंह। लेख सिंह की सम्पति

स्थान- आगरा, दिनांक-02.12.025

स्थान : चण्डीगढ/मोहाली

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड Chola

कब्जा सूचना नियम - 8(1) के तहत जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत मैसस् चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड का अधिकत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम. 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे कॉलम (बी) में सचित नाम वाले कर्जदारों से नीचे कॉलम (डी) में सूचित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हए कॉलम (सी) में निर्दिष्ट तिथियों पर मांग सचनाएं जारी की थीं।

कर्जदारों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नियमों के नियम 9 के साथ पटित अधिनियम की धारा 13(4) तथा उसके तहत निर्मित नियमों द्वारा पदन शक्तियों के उपभोग में यहां नीचे कॉलम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक सम्पत्तियों पर कॉलम (एफ) में वर्णित सम्बन्धित तिथियो

विशेष रूप से कर्जदारों को तथा जनसामान्य को एतद्वारा नीचे कॉलम (ई) में वर्णित सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावर्न दी जाती है और ऐसा कोई संव्यवहार कॉलम (डी) में वर्णित राशि एवं ब्याज सहित अन्य प्रभारों के लिए मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा।

प्रतिभृतिकरण अधिनियम की धारा 13(8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसूचना से पूर्व समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों सहित सम्पूर्ण कारों का भगवान करके प्रतिभव आफ्रिन विमोचित कर सकते हैं।

षप	बकाया का मुगतान करक प्रातमूत आस्त विमाचित कर सकत है।								
क्र.	कर्जदार का नाम तथा पता	मांग सूचना	बकाया	कब्जा कृत	कब्जे				
सं.	और ऋण खाता संख्या	की तिथि	राशि	सम्पत्ति का विवरण	की तिथि				
	n.	С	D	E	F				
A	В	C	D	E	r				
1.	ऋण खाता संख्या HE01CIG00000054226		₹. 32,95,008/-	आवासीय फ्लैट नंबर 98-ए, प्रथम					
	कर्जदार और सह–कर्जदार :–		तिथि	तल, माप 0 कनाल-01 मरला-7	10				
	1. मनीष अजमेरा पुत्र ओम प्रकाश अजमेरा	55	09/09/2025	सरसाई, गोल्डन एन्क्लेव, पार्कव्य	202				
	2. दीप्ति अजमेरा पत्नी मनीष अजमेरा, दोनों का	9/09/2025	तक तथा उस	फ्लैट्स के सामने, गाँव लोहगढ़/46,	1.12.2025				
	पताः फ्लैट नंबर 98/ए, गोल्डन एन्क्लेव, लोहगढ़,	0%	पर भावी ब्याज	तहसील डेराबस्सी, जिला	9				
	जीरकपुर, एसएएस नगर, मोहाली, 140603.		40 4141 4414	साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पंजाब					
	3. मनीष अजमेरा पुत्र ओम प्रकाश अजमेरा, पताः पटियाला रोड,			' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '					
	ट्राइसिटी ट्रेड एंड टावर के सामने, जीरकपुर, 140603.	l .		का समस्त भाग, एमसी क्षेत्र जीरक	पुर की सीमा के				
	4. मेसर्स मार्बल पॉइंट, प्रोपराइटर (मनीष अजमेरा) के माध्य			भीतर, पंजीकृत बिक्री विलेख वसी	का नंबर 8546				
	पटियाला रोड, ट्राइसिटी ट्रेड एंड टावर के सामने, जीरकपुर, 140			तिथि 19/08/2011 के अनुसार।					
_									
तिथि	तिथि : 03/12/2025 अधिकृत ग्राधिकारी								

केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

मैसर्स चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः छठी मंजिल, केआईएफएस कॉर्पोरेट हाउस, होटल प्लैनट लैंडमार्क के पास, अशोक वाटिका के पास, बीआरटीएस, इस्कॉन – आंबली रोड, बोदकदेव, आंबली, अहमदाबाद, गुजरात – 380054। कॉर्पोरेट कार्यालयः सी–902, लोटस पार्क, ग्राहम फर्थ कंपाउंड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई – 400063, हाराष्ट्र, भारत। फोन नंबर: +91 22 61796400 ईमेलः contact@kifs housing.com वेबसाइटः www.kifshousing.com सीआईएनः U65922GJ2015PLC085079 RBI COR: DOR-00145 www.kifshousing.com

परिशिष्ट IV सांकेतिक आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

बिक, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के गोपनीयता और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहर कंआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (केएचएफएल) का अधिकृत अधिकारी होने के रूप में और सुरक्षा व्याज (प्रवर्तन् नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त पिक्त का प्रयोग करते हुये कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी ायरा 2002 के नियम 3 के साथ पाठत थाता 13(2) के तिहत प्रयत्त पात के प्रयाप करता हुय क्यमा के माथकूत आवकृत आवकृत द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता / गारंटर को नोटिस से उल्लिखित राषि प्राप्त होने की तारीख से 60 दिन में के भीतर मुकाने के लिए जारी किया गया डिमांड नोटिस उक्त नोटिस. उधारकर्ता द्वारा राषि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता(अां) / गारंटर(आं) और आम जनता को नोटिस दिया गया है कि नीचे दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्शित किया जाता है। सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान क ओर आकर्शित किया जाता है। विषेश रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है

क्र. सं.	ऋणकर्ताओं / गारंटरों के नाम तथा एनपीए तिथि	मांग सूचना तिथि/ बकाया राशि/शाखा/एलआरएन	प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण	आधिपत्य सूचना तिथि / प्रकार
1.	1. महावीर महावीर	माँग सूचना की तिथि	खेवट संख्या 14 खाता संख्या 17, खसरा संख्या 89/1/1	प्रतीकात्मक
	(आवेदक)	19 सितंबर, 2025	(7–4), गाँव पलवन, तहसील उचाना जिला जींद हरियाणा–	28 नवंबर,
	2. सुनीता सुनीता	ओ / एस. ः रु. 743204/-	126115 स्थल के अनुसारः पूर्व 1: 23 फुट 5 इंच, गली 16 फुट	2025
	(सह—आवेदक)	शाखा / लैन / कैथल /	चौड़ी, पश्चिम 1: 23 फुट 5 इंच, गली 13 फुट चौड़ी, उत्तर 1:	
	एनएपी:	1912	37 फुट 7 इंच, मकान महिंदर पुत्र चत्तर सिंह, दक्षिण 1: 37	
	10 सितंबर, 2025	/LNHEKAI008815	फीट 7 इंच, महिंदर पुत्र छत्तर सिंह।	

ऋणकर्ताओं / गारंटरों के लिए साविधिक सूचना उधारकर्ता / गारंटियों को यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति को बाद में किसी भी समय सार्वजनिक नीलामी / निविदाओं के माध्यम से बेचा जा सकता है और इस प्रकार इसे सुरक्षा (हित) प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 6, 8 और 9 के तहत एक नोटिस के रूप में भी माना जा सकता है। बाधाओं के कारण विस्तृत सूची और पंचनामा दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि ऐसी संपत्ति की तस्वीरे दिनाकः 03.12.2025, स्थानः हरियाणा हस्ता / – प्राधिकृत अधिकारी, केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड।

सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि. **पंजीकृत कार्यालयः** ब्लॉक नं. ए / 1003, वेस्ट गेट, वाईएमसीए क्लब के पास,

नं. 835 / 1+3, एस.जी. हाईवे, मकरबा, अहमदाबाद—380051, गुजरात, कार्पोरेट कार्यालयः प्रथम तल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रोट रोड, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई-400038. ईमेलः ram.jaluka@cfmarac.in, सम्पर्कः 022—40055282/8976862752

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की घारा 13 (2) के साथ प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत

ध्धारकर्ताओं ने यूनिमनी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड (जिसे आगे मूल ऋणदाता कहा जाएगा) से विभिन्न वित्तीय सहायता प्राप्त क थी। उधारकर्ता द्वारा की गई चूकों के बाद, मूल ऋणदाता ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार अपने खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया था। इसके बाद मूल ऋणदाता ने सरफंसी प्रधिनियम के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता की वित्तीय परिसंपत्तियों के साथ—साथ अंतर्निहित प्रतिभूति हित और सभी अधिकार, शीर्षक की धारा 5 के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता की संपूर्ण वित्तीय परिसंपत्तियों के साथ—साथ अंतर्निहित प्रतिभूति हित को समनुदेशक र प्राप्त कर लिया है। समनुदेशक ने 03.04.2025 को विधिवत पंजीकृत समनुदेशन समझौते के माध्यम से, सीएफएमएआरसी ट्रस्ट–173 के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत सीएफएमएआरसी के पक्ष में उधारकर्ता के समी अधिकार, शीर्षक और हित सीप दिए हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों और अंतर्निहित ग्रतिमृतियों के समनुदेशन के आधार पर सीएफएमएआरसी ने उधारकर्ता के लिए सुरक्षित ऋणदाता की भूमिका निभाई है और यकाया राशि वसूलने और अंतर्निहित प्रतिभूति हित को लागू करने का हकदार है।

ू अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत अधाहरताक्षरा विराध आरिया को आतंभूतकरण (य पुनानमाण तथा आतंभूता कि प्रवतन आधानयम, 2002 (उक्त आधानयम) के अतगत सीएफएमएआरसी के प्राधिकृत अधिकारी है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओ) (उक्त उधारकर्ता (ओं)) से, उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उदिलखित राशियों का मुगतान करने का आहवान किया गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचना दी जाती है कि वे इस सूचना के प्रकाशन से 80 दिनों के भीतर, नीचे दर्शाई गई राशि, साथ ही उक्त माग सूवना (यों) में दिए गए विवरण व अनुसार अतिरिक्त व्याज, नीचे उल्लिखित तिथि (यो) से लेकर उक्त ऋणी (यो) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों / लेखों, यदि कोई हों, वे अर्थाः करण समझौते के अंतर्गत देय मुगतान और / या बसूली की तिथि तक, सीएफएमएआरसी को मुगतान करें। ऋण की देय चुकौती हेतु प्रतिभृति के रूप में उक्त ऋणी (यो) द्वारा निम्नलिखित संपतियों क्रमशः सीएफएमएआरसी को गिरवी रखी गई है।

क्र. सं.	बंधकवर्ता / सह-उधारकता /	माग सूचना का ाताथ एवं राशि	सुराक्षतं आस्तिया का विवरण (अचल सम्पत्ति)
1	1. अरविंद सोनी 2. रेखा सोनी 3. राजेंद्र सोनी 4. अश्विनी कुमार	27.11.2025, 05.10.2022 ₹. 4,57,500 / —	सम्पत्ति जोकि मकान नं. 55/192, बाग नानक चंद, लोहा मंडी वार्ड, ईदगाह, शाहगंज, तहसील और जिला आगरा
2	1. दिनेश 2. हरि ओम 3. बबिता 4. गंगा श्री	27.11.2025, 05.07.2023 ₹. 10,89,562 / —	सम्पत्ति जोकि प्लॉट नं. 71 एरिया 83.61 वर्ग भी. नगर नायबाबादी प्रेम नगर, खसरा नंबर 402 का हिस्सा, मीजा बोगी पुरा लोहा मंडी वार्ड तहसील आगरा—282010

यदि उक्त उचारकर्ता सीएफएमएआरसी को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीएफएमएआरसी अधिनियम की घारा 13(4) और लागू नियमों के अतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध पूरी तरह से उचारकर्ता के जीखिम पर लागत और परिणामों के संबंध में कार्यवाही करेगा। उक्त उचारकर्ता(आ), बेबककर्ता को अधिनियम की घारा 13 (13) के अंतर्गत सीएफएमएआरसी की पूर्व लिखित सहमति के विना बिकी, पढ़े या अन्यधा के माध्यम से उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नेयमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और 🖊 या दंड का सामना करना पड़ेगा।

हस्ता / — प्राधिकृत अधिकारी कृते सीएफएम एसेट रिकस्ट्रक्शन प्रा. लि. [सीएफएमएआरसी ट्रस्ट-173]

THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS KNOWLEDGE

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं०. 82, सेक्टर 32, इंस्टीटयूशनल एरिया, गुरूग्राम -122001, हरियाणा फोनः 91 124 4513700 | ई—मेलः <u>shares@dcmshriram.com</u>

वेबसाइटः www.dcmshriram.com

शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016, समय–समय पर यथासंशोधित (''नियम'') के अनपालन में प्रकाशित की जा रही है। उक्त नियम उन शेयरों के लेनदेन प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए है जिनके संबंध में लाभांश निरंतर सात

वर्षों की अवधि के लिए अदावाकृत/अप्रदत्त है। कथित नियमों के अनुसार अदावाकृत/अप्रदत्त लागांश के साथ ऐसे शेयर निवेशक शिक्षा एवं संरक्ष निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) को अंतरित किए जाएंगे। ऐसे शेयरधारक की सूची कंपनी की वेबसाइट <u>https://www.dcmshriram.com/investors</u> shareholders-corner पर अपलोड की गई है। कथित नियमों के अनुपालन में, उन शेयरधारकों जिन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए दूसरा अंतरिम लाभांश के बाद से अपने लाभांश का भुगतान नही प्राप्त किया है या अन्यथा इस संबंध में न्यायालय/ न्यायाधिकरण/साविधिक प्राधिकारियों आदि से कोई आदेश प्राप्त किया हैं, उन्हें अदावाकृत/अप्रदत्त लाभांश का दावा करने का अवसर प्रदान करने और ऐसे शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरण होने से बचाने के लिए उचित कार्यवाही करने

हेतु कंपनी के रिकार्ड के अनुसार उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर इस बारे में उनकी जानकारी के लिए व्यक्तिगत पत्र भेजे गए हैं। संबंधित शेयरघारकों से अनरोध है कि वे अप्रदत्त लाभांश / संगत दस्तावेज / आदेश आदि. के प्रमाण के साथ जैसा भी मामला हो, **शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026** को य उससे पहले, कंपनी/रिजिस्ट्रार एवं शैयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को लिखें। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उन्हें मेजी गई व्यक्तिगत सूचना का अवलोकन करें या आरटीए मेसर्स एमसीएम शैयर ट्रांसफर एजेंट ति., 179—180, डीएसआईडीसी शेड, तीसरी मंजिल, ओखला इंडरिट्रयल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली—110020, फोन: 011-सी406149-52, ई—मेल: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com और कंपनी डीसीएम श्रीराम लिमिटेड दूसरी मंजिल (पश्चिम विंग), वर्ल्डमार्क 1, एरोसिटी, नई दिल्ली-110037, फोनः 011-42100200, ई-मेलः shares@dcmshriram.com पर संपर्क करें (कृपया सभी पत्राचार के साथ अपना फोलियो / डीपी–क्लाइंट आईडी नम्बर उदत करें)।

सेबी ने कंपनी/आरटीए को भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सर्भ शेयरधारकों से पैन कार्ड, केवाईसी विवरण, बैंक खाता विवरण, नामांकन फॉर्म आदि की प्रतिया प्राप्त करने का निर्देश दिया है। इसलिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनरोध है कि वे जल्द से जल्द अपन पैन, केवाईसी और अन्य विवरण प्रदान करें। इसके अलावा, डीमैटरियलाइजेशन के अंतर्निहित लाम प्राप्त करने के लिए मौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अतिशीघ्र अपने भौतिक होल्डिंग को डीमैटरियलाइज्ड मोड में परिवर्तित करें। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.dcmshriram.com/investors/shareholders-corner को देखें

तिथिः २ दिसम्बर, 2025

KAMDHENU

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः

सूचना दी जाती है कि सेबी SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसरण में, हस्तांतरण विलेखों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक की छह महीने की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है।

यह उन हस्तांतरण विलेखों पर लागू होता है जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले जमा किए गए थे, लेकिन दस्तावेजों या प्रक्रिया में कमियों के कारण अस्वीकार या वापस कर दिए गए थे और 31 मार्च, 202⁻ की समय सीमा चूक गए थे। तदनुसार, पात्र शेयरधारकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऐसे विलेखों को विशेष विंडो अवधि के भीतर कंपनी के आरटीए अर्थात केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट सं. 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद 500032, दुरभाषः +91–40–67161517 ईमेल आईडीः <u>einward.ris@kfintech.com</u> के पास पुनः प्रस्तुत करें। कृपया ध्यान दें कि हस्तांतरण के लिए पुनः प्रस्तुत किए गए शेयरों पर केवल डीमैट मोड में ही कार्रवाई

की जाएगी।

दिनांकः 02.12.2025 ध्थानः गरुग्राम

केन फिन होम्स लिमिटेड

,ससीओ 87, प्रथम तल, सेक्टर 47 डी, चंडीगढ़, 160047 Can Fin Homes Lid इंमेल: CHANDIGARH@CANFINHOMES.COM, मो : 7625079132,

फोनः 0172-2632925 CIN: L85110KA1987PLC008699

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

के प्रावधान के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई—नीलामी बिक्री सूचना एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है क प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका **भौतिक** कब्ज केन फिन होम्स लिमिटेड चंडीगढ शाखा के प्राधिकत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चका है श्रीमती अनीता पत्नी रतन सिंह (उधारकर्ता), श्री रतन सिंह पुत्र भूले सिंह (सह-उधारकर्ता और श्री राकेश कुमार पुत्र मदन लाल (गारंटर) से केन फिन होम्स लिमिटेड की 02.12.2025 तक बकाया राशि रु. 32,82,809 / - (रुपए बत्तीस लाख बयासी हजार आठ सौ नौ मात्र) उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रमारों इत्यादि की वसूली के लिए दिनांक 07.01.2026 के ई—नीलामी द्वारा "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहाँ है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मुल्य **रु. 22,10,000 /— (रुपए बाईस लाख दस हजार मात्र)** तथा धरोह

संपत्ति कर रसीद संख्या बी-015/02810-18, संपूर्ण फ्लैट संख्या 5 भूतल, खाता संख्य 161,174, 1628 / 1, 2671, 2670, खतूनी संख्या 167, 180, 1659, 2772, 2771, खसरा संख्य 38 / / 21(8-0), 37 / 25 / 1 / 3 (0-1), 25 / 2 / 2(0-13), 53 / / 10 / 2 (5-3), 10 / 1 (1—16), 20 / 1 (0—14) किता 6, 16 कनाल ७ मरला और खाता संख्या 3062 / 3203. खसरा संख्या 165 (6–9), 166 (0–11), 166 / 2(0–8) किट्टे 3, 7 कनाल / मरला, रहमत होम्स, रंधावा

उत्तर – फ्लैट नंबर 4 चौहद्दी: पूर्व – प्रवेश / अप्रोच रोड

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्ते केन फिन होम्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx) में उपलब्ध कराई गई हैं। —नीलामी में भाग लेने के लिए लिंक www.bankeauctionwizard.com देखें।

तिथि : 02.12.2025 स्थान : चंडीगढ

प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड

केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः छठी मंजिल, केआईएफएस कॉर्पोरेट हाउस, होटल प्लैनेट लैंडमार्क के पास, अशोक वाटिका के पास, बीआरटीएस इस्कॉन – आंबली रोड, बोदकदेव, आंबली, अहमदाबाद, गुजरात – 380054 जॉर्पोरेट कार्यालयः सी–902, लोटस पार्क, ग्राहम फर्थ कंपाउंड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई – 400063, महाराष्ट्र, भारत फोन नंबर: +91 22 61796400 ईमेल: contact@kifs housing.com वेबसाइट: www.kifshousing.com सीआईएन: U65922GJ2015PLC085079 RBI COR: DOR-00145 सीआईएनः U65922GJ2015PLC085079

परिशिष्ट IV सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) बिक, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के गोपनीयता और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के

केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (केएचएफएल) का अधिकृत अधिकारी होने के रूप में और सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नेयम २००२ के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त षिक्त का प्रयोग करते हुये कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी ारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता / गारंटर को नोटिस में उल्लिखित राषि प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने वे . लिए जारी किया गया डिमांड नोटिस उक्त नोटिस. उधारकर्ता द्वारा राषि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं और आम जनता को नोटिस दिया गया है कि नीचे दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधोहरताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया हैं। उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्शित किया जाता है। सुरक्षित संपत्तियाँ को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्शित किया जाता है। विषेश रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है

क. सं.	उधारकर्ताओं / गारंटरों के नाम और एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तिथि /राषि बकाया/ शाखा लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरणः	कब्जा सूचना की तिथि /प्रकार
1	शंकर क्मिनक गुप्ता (आवेदक) अमेशीला प्रेमशीला (सह—आवेदक) एनपीए' 10 सितंबर, 2025	माँग सूचना की तिथिः 19 सितंबर, 2025 ओ/एस.: रु. 568485/- शाखा / लैन / गोरखपुर/11453/ LNHLGOR012227	की भूमि, पश्चिमः भूमि श्रीमती उषा देवी, उत्तरः चकनाली, दक्षिणः लिंक रोड पक्का, साइट के अनुसारः पूर्व 1: विनय कमार की भिम पश्चिम 1: भिम श्रीमती उषा देवी उत्तर	

उधारकर्ताओं / गारंटरों को वैधानिक सूचना उधारकर्ता / गारंटियों को यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति को बाद में किसी भी समय सार्वजनिक नीलामी / निविदाओं के माध्यम से बेचा जा सकता है और इस प्रकार इसे सुरक्षा (हित) प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 6, 8 और 9 के तहत एक नोटिस के रूप में भी माना जा सकता है। बाघाओं के कारण विस्तृत सूची और पंचनामा दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि ऐसी संपत्ति की तस्वीरें ली गई हैं दिनांकः 03.12.2026, स्थानः उत्तर प्रदेश हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड।

♦ FINANCIAL EXPRESS





बैंक ऑफ बड़ौदा, झज्जर रोड, बहादुरगढ़ (डीबीबीएएचए) **पुरवा के माध्यम से**, के संबंध में प्रकाशित . –नीलामी सूचना की ओर आकर्षित किया जाता है। आरक्षित मूल्य को रु 25,84,000/- के स्थान पर

2.धरोहर राशि को रु 2,58,400/- के स्थान पर रु 2,32,600/- पढ़ा जाए। अन्य नियम और शर्तें वही रहेंगी।

B dies sites section and Bernet.

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

रु 23.26.000/- पढा जाए।

जगह "28.11.2025" पढ़े व माने।

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः

प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है।

के पास पनः प्रस्तत करें।

कृपया ध्यान दें कि हस्तांतरण के लिए **पुन**ः प्रस्तुत किए गए शेयरों पर केवल डीमैट मोड में ही

दिनांक: 02.12.2025 एम सं. 00005973

वाद सं. ओए/1430/2024

नंबर 7, गुरुग्राम हरियाणा। गुड़गांव, हरियाणा (2) हरीशं कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दयाल पुत्र गंगा सहाय भारतीय निवासी फारुख नगर गुड़गांव

सम्मन / नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ

.., अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें; (iii) आपको मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई सुरक्षित परिसंपत्तियों या ऐसी

(v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभृत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभति

कॉर्पोरेट पहचान नंबर: L40101DL1975GOI007966

ईमेल: isd@ntpc.co.in | वेबसाइट: www.ntpc.co.in

एनटीपीसी लिमिटेड के सम्मानित शेयरधारकों के लिए सूचना

वे शेयर भी आयईपीएफ खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जिन शेयरधारकों के डिविडेंड लगातार सात साल तक नहीं लिए गए या भुगतान नहीं हुए थे, ऐर शेयर आयईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ऐसे शेयरधारकों की

अपना डिविडेंड नहीं लिया, उनके संबंधित शेयर भी आयईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में

शेयरधारक कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनका कोई भी दावा,आरटीए/एनटीपीसी लिमिटेड को 4

एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी











CIN: U67100GJ2015PTC083994

सूचना (कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ) . सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ पठित निवेशक

दक्षिण – फ्लैट नंबर ६ पश्चिम — अन्य की सम्पत्ति

कृते डीसीएम श्रीराम लिमिटेड हस्ता/-

कंपनी सचिव

प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो

राशि जमारु.2,21,000 (रुपए दो लाख इक्कीस हजार मात्र) होगी।

कामधेनु लिमिटेड [सीआईएन: L51909HR2019PLC089207] कार्यालय: 2री मॉज़ल, टॉवर-प, बिल्डिंग नं. 9, डीएलएफ साइवर सिटी, फेज-III, गुरुग्राम, हरियाणा−122002, फोन: 0124−4604500, इं-मेल: cs@kamdhenulimited.com

> खेम चंद कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी एफसीएस: 10065

हस्ता./

संपत्ति का विवरण

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तः अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6)